



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अगस्त 29, 2025

संख्या 35

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	अगस्त 23	अगस्त 15	अगस्त 22	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3478650	3788192	3773448	-14744	294798
1.1 संचलन में नोट	3478635	3788176	3773434	-14742	294799
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	15	16	14	-2	-1
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0		0	
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	1	1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	960220	954551	932900	-21651	-27320
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8279	8122	8011	-111	-268
2.6 अन्य बैंक	55096	52726	53016	290	-2080
2.7 अन्य	689655	717173	745612	28439	55957
3 अन्य देयताएं	1899261	2349220	2303451	-45769	404190
कुल देयताएं / आस्तियां	7091304	7870127	7816581	-53546	725277
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5051091	5161298	5127539	-33759	76448
2 सोना	511818	750161	744074	-6087	232256
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1316259	1774610	1767876	-6734	451617
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	26802	34130	27463	-6667	661
4.3 नाबार्ड	-	0	-	0	-
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6708	1187	1818	631	-4890
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	165145	126568	125370	-1198	-39775
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	11417	20110	20377	267	8960

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अगस्त 22, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6046195	690720	-40587	-4386	334054	22394	326224	9033
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5096748	582251	-33816	-3652	245914	14693	82736	-15302
1.2 स्वर्ण	744074	85003	-6087	-665	75912	6826	232256	24006
1.3 विशेष आहरण अधिकार	164003	18736	-464	-46	8714	566	9115	277
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	41371	4731	-220	-23	3516	308	2118	51

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अगस्त 22, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 957697 करोड़	2025													
	अगस्त 09	अगस्त 10	अगस्त 11	अगस्त 12	अगस्त 13	अगस्त 14	अगस्त 15	अगस्त 16	अगस्त 17	अगस्त 18	अगस्त 19	अगस्त 20	अगस्त 21	अगस्त 22
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	1002699	999793	954809	995289	963629	966157	961581	956558	955775	941544	940267	933655	928785	940140
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	104.7	104.4	99.7	103.9	100.6	100.9	100.4	99.9	99.8	98.3	98.2	97.5	97.0	98.2

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	अगस्त 08, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	341956	-466	-3048	32542	38794	50533
1.2 बैंकों से उधार	100840	-4366	-51466	-11136	-59054	-30123
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	25576	3249	4512	-4340	9365	-51388
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23473888	124061	854417	893287	2091718	2144245
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	4.2	4.0	10.9	10.1
2.1.1 मांग	2846826	-29542	-29293	148777	232491	432265
2.1.2 मीयादी	20627062	153603	883709	744510	1859227	1711980
2.2 उधारियां	839856	2302	72696	-75393	53275	-10783
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1021630	31958	-29153	-40002	50066	113356
3 रिज़र्व बैंक से उधार	4352	2446	-214891	-307114	-22582	-3473
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1004452	3748	38740	40163	40156	-55204
4.1 उपलब्ध नकदी	77650	-4825	-829	-4224	-18856	-10953
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	926802	8572	39569	44387	59012	-44250
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	259295	-4902	2324	43494	7373	58644
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	16804	-1107	614	-9034	-10268	3835
5.3 बैंकों को अग्रिम	26295	-919	-5263	-13209	-2608	-16810
5.4 अन्य आस्तियां	72533	12633	7647	5180	27566	-50537
6 निवेश	6749293	22465	221680	51365	414497	421055
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.3	3.6	0.8	7.0	6.7
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6748834	22550	222255	51536	414877	420970
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	459	-85	-575	-171	-380	86
7 बैंक ऋण	18606042	104664	448137	362069	2019509	1725741
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.6	2.7	2.0	13.6	10.2
7 क.1 खाद्य ऋण	52281	-4393	4850	15750	8001	24350
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18553760	109058	443287	346319	2011508	1701390
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18268274	105108	433553	358422	1965615	1700417
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	77796	702	6740	2834	23552	10590
7 ख.3 भुनाए गए	224929	-477	9474	3870	34720	18098
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13178	-137	-5	-1943	-1567	-3229
7 ख.5 भुनाए गए	21864	-531	-1624	-1113	-2812	-136

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	अगस्त 23	जुलाई 25	अगस्त 01	अगस्त 08	अगस्त 15	अगस्त 22
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.95	4.29	..	4.28	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	79.46	79.24	..	79.26	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	60.38	33.46	..	40.53	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.85	28.81	..	28.75	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	30.47	3.76	..	5.75	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.95/8.20	7.85/8.15	7.85/8.15	7.85/8.15	7.80/8.15
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.30	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिंत औसत)	6.50	5.55	5.41	5.40	5.43	5.47
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.64	5.39	5.40	5.46	5.49	5.48
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.72	5.53	5.52	5.55	5.57	5.58
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.73	5.57	5.57	5.58	5.59	5.60
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.90	6.43	6.41	6.45	6.47	6.61
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.87	86.52	87.35	87.62	87.49	87.44
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	93.34	101.73	99.88	102.05	102.38	101.34
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.08	1.81	1.70	1.57	1.63	1.74
3-माह	1.32	1.76	1.68	1.70	1.77	1.87
6-माह	1.61	1.85	1.77	1.85	1.91	1.96

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मद्रुओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अगस्त 08	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28290469	150595	0.5	869742	3.5	1003879	3.7	2330979	9.9	2480866	9.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3727565	20107	0.5	15060	0.4	96813	2.7	210333	6.5	302229	8.8
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	2990208	-28458	-0.9	-29142	-1.1	150185	5.3	237167	10.2	432462	16.9
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21462974	156866	0.7	885659	4.7	760466	3.7	1862608	10.4	1729155	8.8
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	109722	2080	1.9	-1834	-1.9	-3585	-3.2	20870	29.1	17020	18.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8680407	139090	1.6	136338	1.8	169582	2.0	272856	3.7	940499	12.2
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1615236	113086		-85461		107131		-144437		507485	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7065171	26004	0.4	221799	3.5	62451	0.9	417293	6.7	433014	6.5
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	19407493	106513	0.6	441236	2.6	339365	1.8	2045300	13.1	1763426	10.0
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	12425	42		-3967		-25821		6327		1985	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	19395068	106471	0.6	445202	2.6	365185	1.9	2038973	13.1	1761441	10.0
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6503298	36038	0.6	270025	4.9	354771	5.8	772186	15.2	665770	11.4
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38057	0	0	874	2.6	1426	3.9	3158	10.1	3751	10.9
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6338787	131046	2.1	-21270	-0.4	-138737	-2.1	762521	16.3	892580	16.4
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2333098	97230	4.3	26184	1.5	185672	8.6	265894	17.1	516780	28.5

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अगस्त 22	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4915063	-36144	-0.7	-3088	-0.1	85820	1.8	172793	3.9	286704	6.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3811491	-14742	-0.4	1480	0.0	87044	2.3	202876	6.1	298550	8.5
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	993927	-21473	-2.1	-1853	-0.2	2438	0.2	-50018	-4.7	-29669	-2.9
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	109645	71	0.1	-2714	-2.9	-3661	-3.2	19935	27.7	17823	19.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1511706	-130903		-167668		3601		-159702		486162	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1484286	-124236		-187870		8826		-170034		485501	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-216783	89018		-55710		-97767		-99976		-114925	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-229852	89118		-51611		-72591		-105097		-117688	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5870992	-39991	-0.7	322512	6.2	320045	5.8	812163	17.1	307398	5.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38057			874	2.6	1426	3.9	2906	9.3	3751	10.9
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2288911	-45733	-2.0	103095	5.8	141484	6.6	382599	25.3	395681	20.9

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	ऋय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अगस्त 18, 2025	-	-	-	23360	1273	111903	-361	-	-	-134351
अगस्त 19, 2025	-	-	-	-	1992	105186	-	-	-	-103194
अगस्त 20, 2025	-	-	-	-	4249	74157	-	-	-	-69908
अगस्त 21, 2025	-	-	31025	-	7687	83484	-632	-	-	-45404
अगस्त 22, 2025	-	-	-	75781	1818	155889	892	-	-	-228960
अगस्त 23, 2025	-	-	-	-	322	90563	-	-	-	-90241
अगस्त 24, 2025	-	-	-	-	533	92624	-	-	-	-92091

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जून	जुलाई	जून	जुलाई	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	190.2	193.0	194.2	196.0	0.9	2.1	1.6
1.1 ग्रामीण	192.2	195.3	195.5	197.6	1.1	1.9	1.2
1.2 शहरी	187.8	190.3	192.6	194.2	0.8	2.3	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	141.4	142.7	145.0	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.0	155.3	153.8	154.4	0.4	-0.3	-0.6
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	192.3	197.8	185.8	188.0	1.2	1.3	-5.0
3.2 ईंधन और बिजली	146.9	148.2	143.0	144.6	1.1	-4.9	-2.4
3.3 विनिर्मित उत्पाद	142.0	141.7	144.8	144.6	-0.1	0.0	2.0

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अगस्त 08, 2025	511313	27982	5.64 - 6.24
अगस्त 22, 2025	494943	36879	5.66 - 6.27

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जुलाई 31, 2025	547229	73859	5.57 - 13.84
अगस्त 15, 2025	554480	56758	5.68 - 12.67

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अगस्त 23, 2024	अगस्त 15, 2025	अगस्त 22, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	16106	24392	29137
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1774	8303	1821
3 त्रिपक्षीय रेपो	644906	803167	706895
4 बाजार रेपो	503684	794301	664441
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	4666	11835	11865

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अगस्त 22, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	10311	12215	74688	208388
182-दिवसीय	55520	49746	19281	212181
364-दिवसीय	76032	78405	45548	349248
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अगस्त 22, 2025 तक)	2024-25 (अगस्त 23, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अगस्त 22, 2025 तक)	2024-25 (अगस्त 23, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	606000	570697	1400697	470914	375151	1039275
2. राज्य सरकारें	350418	267144	1073310	239767	180781	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल द्वारा प्रकाशित।